

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highways Division
लो०नि०वि०, कानपुर-208001
UPPWD, Kanpur-208001



12/476, मैकराबर्टगंज, कानपुर-208001
12/476 Macrobertganj Kanpur-208001
E-mail: nhdivisionkanpur2012@gmail.com

Letter No. 643/292

Date: 04.08.2022

To
Divisional Forest Officer
Social Forestry Division
Sitapur, UP


Subject: Upgradation of Sitapur -Pratap Nagar of NH-330D in the State of Uttar Pradesh to Two/ Four Lane with Paved Shoulder Configuration (Package-01, From Ch: 0+000 to 38+853) under Forest Division Sitapur and Forest Division Hardoi(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/146875/ 2021 for diversion of 36.987 ha forest land)-Trees Enumerationregd.

Ref.: DFO, Sitapur's letter No. 5882/144, dated 04.06.2022

Sir,

Please refer to the subject and your letter under reference above. Trees enumeration with species and girth within ROW has been completed under close supervision of your Department in Sitapur and Mishrikh ranges under Social Forestry Division, Sitapur. Certified copy of joint trees enumeration reports w.r.t. Sitapur & Mishrikh Range are **enclosed** for your information and further needful action.

Encl. As above


(Awadesh Kumar Singh)
Executive Engineer
N.H. Division, PWD, Kanpur

Date:

Letter no.

C.C. to: Information and necessary action:

1. Chief Engineer (NH), PWD, Lucknow.
2. Superintending Engineer, N.H. Circle, PWD, Kanpur
3. Assistant Engineer-II/Junior Engineer 'T', N.H. Division, PWD, Kanpur.

Executive Engineer
N.H. Division, PWD
Kanpur

श्रीमान कोडीग ननादीकारी

रेंज: सीतापुर

विषय: - Request for joint site verification for tree valuation of
Proposed alignment of Sitapur to Kusrain via Faratop
Nagar road NH-330D from ch. 0.000 to 40.000.

सन्दर्भ: - प्रभागीय कार्यालय का पत्रांक 5229/14-1 दि. 02.05.2022 व
5882/14-1 दिनांक 04.06.2022

महोदय,

विषयांकित पत्र की जाँच संयुक्त रूप से श्री दीपक कुमार,
(स्टाड इंजिनियर) के साथ किया गया। रिपोर्ट निम्नतः है -

बाँधी परती

No	Scientific Name	Local Name.	(0-30) cm	(31-60) cm	(61-90) cm	(91-120) cm	(121-150) cm	(151-180) cm
1	Vachellia nilotica	बकूल	—	—	—	—	1	1
2	Dalbergia sissoo	शीशम	1	—	4	1	1	—
3	Ficus religiosa	पीपल	—	—	—	—	—	2
4	Melia azadirach	बकन	—	2	6	1	—	—
5	Ziziphus Mauritiana	बैर	—	—	1	1	—	—
6	Holoptelea integrifolia	चिलाबिल	—	1	—	—	—	—
7	Neolamarckia cadamba	कदम्ब	—	—	—	1	—	—
8	Pongamia glabra	कंजी	—	—	1	—	—	—
योग			1	3	12	4	2	3

DEEPAK
28/6/22

अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि.
कानपुर

P. T. O.


रोष पुष्क - 2 पर

क. ब. द. य.
(अधिशाली रंजन पाण्डे)
न. र.


Scientific Name	Local Name	(0-30) cm	(31-60) cm	(61-90) cm	(91-120) cm	(121-150) cm	(>150) cm
<i>Azadirachta indica</i>	नीम	-	-	1	1	-	1
<i>Heliptelea integrifolia</i>	चिलगिल	-	1	-	1	-	-
<i>Vachellia nilotica</i>	बैरल	-	-	-	2	-	-
<i>Moringa oleifera</i>	सहजन	-	-	3	1	-	-
<i>Dalbergia sissoo</i>	शीशम	-	5	3	1	1	-
<i>Pithecellobium dulce</i>	जंगल जलेबी	-	-	1	-	-	-
<i>Melia azadirach</i>	लकड़	-	3	1	1	-	1
<i>Ficus religiosa</i>	पीपल	-	-	-	-	-	1
<i>Morus alba</i>	ब्राह्म	-	1	-	-	-	-
<i>Rigelia africana</i>	बालमखीरा	-	-	4	-	-	-
<i>Phoenix dactylifera</i>	खजूर	-	-	1	2	-	-
<i>Saraca asoca</i>	अशोक	-	1	-	-	-	-
<i>Terminalia arjuna</i>	अर्जुन	-	-	-	-	-	6
<i>Mangifera indica</i>	अमर	-	-	-	-	-	1
<i>Syzygium cumini</i>	जामुन	-	-	-	-	-	2
<i>Eucalyptus</i>	यूकेलिप्टस	-	-	1	-	-	1
	योग	-	11	15	9	1	13


इतिहासक वनीकरण हेतु माफि चोटीकरण से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल लगभग 6.75 हेक्टर है, वही क्षेत्र दो गुना 13.50 हेक्टर वन भूमि सीतापुर रेंज में उपलब्ध नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भूमि मिली अन्य रेंज से प्राप्त करने की कृपा करें।

रिपोर्ट प्रमाणों की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


DEEPAK KUMAR
Site Incharge

28/6/22


(अभिषेक रंजन पाण्डेय)
दिनांक - 28-06-2022


अधिशायी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि,
कानपुर

Trees list of Mishrikh Range

Sl No	Scientific Name	Local Name	RHS Site					≥1.51
			0.3	.31 to .60	.61 to .90	.91 to 1.20	1.21 to 1.50	
1	Amaltash			1				
2	Amrud			1				1
3	Aroo							10
4	Arjun		1	2	2	6	4	3
5	Ashok				2	2	2	
6	Babool		1	1		2	4	
7	Baken		1	4	3	2	2	2
8	Bargad							1
9	Ber						1	
10	Chakresiya				15	10		
11	Chhitwan			2	2	1		
12	chilbil		2	20	40	15	18	15
13	goldmohar			2	2	1	1	
14	Gular			7	3	1		
15	Gutel			1	4	1		
16	Imli							3
17	Jamun		1	4	2	1	3	17
18	Jangli Jalebi					2		
19	Kadam			5	10	6	3	1
20	Kanjee		3	19	16	9	6	4
21	K gluka				1			
22	Kala Sirsa			1	1			
23	Kesiya Galuth							2
24	Khajur			1	8	8		
25	Kaitha					2		
26	Khair					1		
27	Lasodh							1
28	Mahua			1			1	12
29	Mango			1	1	2	3	43
30	Neem			3	6	4	6	44
31	Pakkar						1	7
32	Pipal				3	6	2	12
33	Prashpish			15	7	5	1	1
34	Sagun				1			
35	Sernal					1	1	6
36	Shatut				1		1	
37	Shisham		5	24	16	8	3	11
38	Sirash			2	2	4	3	4
39	Subhbul			3	2	2		1
40	UK						2	9

Akshay Kc

(निदेशक) कानपुर शहर
तहसील



अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि.
कानपुर

निदेशक
कानपुर शहर
तहसील

